



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF
COMMISSIONER OF INCOME TAX
CCIT, UDAIPUR

To, ASG HOSPITAL PRIVATE LIMITED Commercial Building at 22/5 New Municipal No. 58/43), Haidwar Road, Opposite Railway workshop Dehradun 248001, Uttarakhand India	
--	--

PAN: AAHCA2937J	Dated: 15/07/2026	DIN & Order No : ITBA/COM/F/17/2026-27/1091100923(1)
---------------------------	-----------------------------	--

Sir/ Madam/ M/s,

Subject: Proceedings under section 17(1) - Order

Kindly find attached herewith this office order no. 675 dated 15.07.2026 regarding approval of hospital under section 17(2)(b)(ii) of the Income Tax Act, 2025 [Old section 17(2)(viii)(ii)(b) of the I.T. Act, 1961].

MANISHA CHANDRA
CCIT, UDAIPUR

(In case the document is digitally signed please refer Digital Signature at the bottom of the page)

Signature valid

Digitally Signed
Name: MANISHA CHANDRA
Date: 15-Jul-2026 13:17:27
Location: RAJASTHAN

Enclosed: Refer to attachment ATTACHMENT_100116512318.pdf

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
AAYKAR BHAWAN, UDAIPUR, RAJAST, SUBCITY CENTRE, SAVINA, UDAIPUR, Rajasthan, 313001
Email: UDAIPUR.CCIT@INCOMETAX.GOV.IN,

Note:- The website address of the e-filing portal has been changed from www.incometaxindiaefiling.gov.in to www.incometax.gov.in.
* DIN-Documents Identification No.



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
कार्यालय/ OFFICE OF THE

मुख्य आयकर आयुक्त/ CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX

आयकर भवन, चौथी मंजिल / Aaykar Bhawan, 4th Floor,

सबसिटी सेन्टर, रेती स्टैण्ड के पास, उदयपुर/ Sub City Center, Near Reti Stand, Udaipur-313002

[Phone: 0294-2585100, Fax: 0294-2585104,

e-mail: udaipur.ccit@incometax.gov.in]

Subject: Proceedings under section 17(2) - Order

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(2)(b)(ii) के अंतर्गत अस्पताल की स्वीकृति। [आयकर अधिनियम, 1961 की पुरानी धारा 17(2)(viii)(ii)(b)]

Approval of hospital under Section 17(2)(b)(ii) of the Income Tax Act, 2025 [Old section 17(2)(viii)(ii)(b) of the I.T. Act, 1961]

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(2)(b)(ii) [आयकर अधिनियम, 1961 की पुरानी धारा 17(2)(viii)(ii)(b)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 2026 के नियम 18 [पुरानी आयकर नियम, 1962 का नियम 3A] के साथ पठित उक्त परंतुक के प्रयोजन के लिए ए एस जी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, कमर्शियल बिल्डिंग, 22/5 (नया म्युनिसिपल नंबर 58/43), हरिद्वार रोड, रेलवे वर्कशॉप के सामने, देहरादून, उत्तराखंड-248001 पैन: AAHCA2937J को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। In exercise of the powers conferred by section 17(2)(b)(ii) of the Income Tax Act, 2025, [Old section 17(2)(viii)(ii)(b) of the I.T. Act, 1961] read with Rule 18 of the Income Tax Rules, 2026 [Old Rule 3A of the I.T. Rules, 1962], approval is hereby granted to M/s ASG Hospital Pvt. Ltd; Commercial Building at 22/5 (New Municipal No. 58/43), Haridwar Road, Opposite Railway Workshop, Dehradun, Uttarakhand-248001, PAN-AAHCA2937J, for the purpose of said proviso.

2. यह स्वीकृति केवल नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के चिकित्सा उपचार या उसके परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर उपर्युक्त अस्पताल में किए गए किसी भी व्यय के संबंध में भुगतान की गई किसी भी राशि पर लागू होती है, और यह केवल आयकर नियम, 2026 के नियम 18(3) [पुरानी आयकर नियम, 1962 का नियम 3A(2)] के तहत निर्धारित निम्नलिखित बीमारियों या रोगों के लिए ही मान्य है: The approval is applicable only in relation to any sum paid by the employer in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the aforesaid hospital only for the following diseases or ailments prescribed under rule 18(3) of the Income Tax Rules, 2026 [Old Rule 3A(2) of the I.T. Rules, 1962]:

Ailment or disease of the eye, requiring surgical operation;



3. प्रदान की गई स्वीकृति को भारत सरकार या मुख्य आयकर आयुक्त, उदयपुर या सरकार के अधीन किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए दी गई स्वीकृति नहीं मानी जाएगी।/The approval accorded should not be construed as approval of the Government of India or the Chief Commissioner of Income Tax, Udaipur or any other statutory authority under the Government, for any other purpose(s).

4. यह स्वीकृति किसी भी समय वापसी ली जा सकती है, यदि यह पाया जाता है कि स्वीकृति धोखाधड़ी और/या तथ्यों की गलत व्याख्या के माध्यम से प्राप्त की गई है, या आयकर नियम, 2026 के नियम 18 के उप-नियम (1) [पुरानी आयकर नियम, 1962 का नियम 3A(1)] में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, और स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में बाद में होने वाले परिवर्तन के कारण संशोधन/वापसी की आवश्यकता होने पर भी इसे वापस लिया जा सकता है।/ This approval is subject to withdrawal at any time, if it is found that the approval has been obtained through fraud and / or misinterpretation of facts, or necessary conditions as stipulated in Sub-rule (1) of Rule 18 of the Income Tax Rules, 2026 [Old Rule 3A(1) of Income Tax Rules, 1962] are not fulfilled and is subject to modification / withdrawal, if necessitated by subsequent changes in provisions governing the approval.

5. यह अनुमोदन तारीख 15/07/2026 से 14/07/2029 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन ऐसे अनुमोदन तथा संशोधन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी परिवर्तन द्वारा अनिवार्य बनाने की स्थिति में नियम 18 के अधीन विहित सांविधिक शर्तों के साथ अस्पताल द्वारा अनवरत अनुपालन पर निर्भर है।


The approval is valid for a period of three years from 15/07/2026 to 14/07/2029 and is subject to the continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 18 of the Income Tax Rules, 2026 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income Tax Act, 2025.

6. चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने वाले कर्मचारी को अस्पताल एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें उपचारित रोग और दवाईयों पर हुए खर्च की राशि के साथ-साथ संबंधित बिल भी शामिल होंगे।/The hospital shall issue a certificate to the employee who avails the medical facility specifying the disease or ailment for which medical treatment was given and the amount of expenditure incurred in payment to the hospital and for medicines along with relevant bills.

7. यह स्वीकृति नीचे उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।/This approval is subject to terms and conditions as mentioned hereunder:-

1. This approval is not transferrable.
2. The hospital shall be open at all reasonable times for inspection by such Income-tax authority (/ies) as duly authorized in this behalf.
3. The hospital shall confirm to such conditions as are prescribed under Section 17(2)(b)(ii) of the Income Tax Act, 2025 [Old section 17(2)(viii)(ii)(b) of the I.T. Act, 1961] read with Rule 18 of the Income Tax Rules, 2026 [Old Rule 3A of the I.T. Rules, 1962]. In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital to notify the authority issuing this approval of such fact immediately.
4. The application for renewal of approval should be submitted **at least 60 days before the expiry of current approval.**




(मनीषा चन्द्रा / Manisha Chandra)
मुख्य आयकर आयुक्त / Chief Commissioner of Income Tax,
उदयपुर / Udaipur

फा.सं. मु.आ.आ./उदयपुर/तकनीकी/17(2)(बी) (ii) /ए एस जी हॉस्पिटल/2026-27/ दिनांक: 15/07/2026

675

प्रतिलिपि अग्रेषित/Copy forwarded to:

- i. ए एस जी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, कमर्शियल बिल्डिंग, 22/5 (नया म्युनिसिपल नंबर 58/43), हरिद्वार रोड, रेलवे वर्कशॉप के सामने, देहरादून, उत्तराखंड-248001 पैन: AAHCA2937J
- ii. भारत में सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/All the Pr. Chief Commissioner of Income Tax in India.
- iii. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), राजस्थान, जयपुर/Director General of Income Tax (Inv.), Rajasthan, Jaipur
- iv. भारत में सभी मुख्य आयकर आयुक्त/All the Chief Commissioner of Income Tax in India.
- v. भारत में सभी प्रधान आयकर आयुक्त/All the Pr. Commissioner of Income Tax in India.
- vi. प्रधान आयकर आयुक्त-प्रथम, जोधपुर/Pr. Commissioner of Income Tax-1, Jodhpur
- vii. अपर/ आयकर आयुक्त, रेंज-1, जोधपुर/Addl./Jt. Commissioner of Income Tax, Range-1, Jodhpur
- viii. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-1 जोधपुर/ACIT, Circle -1, Jodhpur



(Signature)

(कुमार रवि रंजन/Kumar Ravi Ranjan)

आयकर अधिकारी (तक.) / Income Tax Officer (Tech.),

कृते मुख्य आयकर आयुक्त/ For Chief Commissioner of Income Tax,
उदयपुर/Udaipur